

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 मार्च 2015—फाल्गुन 13, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2015

फा. क्र. 17 (ई) 261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीहोर, जबलपुर, बैतूल, दतिया, मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 फरवरी 2015

परिशिष्ट-1

क्र. 426-स्था.निर्वा.-याता.-2015.—त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2015 अन्तर्गत सीहोर जिले के विकासखण्ड बुधनी के तृतीय चरण निर्वाचन दिनांक 22 फरवरी 2015 को सम्पन्न कराने के लिये नियुक्त सेक्टर आफिसर को विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में.

सेक्टर क्रमांक (1)	शासकीय सेवक का नाम व पद (2)	सेक्टर अन्तर्गत सम्मिलित मतदान केन्द्रों का क्रमांक (3)
1	श्री डी. एल. पेंडारकर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि	1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 कुल 12
2	श्री एस. के. राय, अनुवि. अधिकारी, कोलार परियोजना, रेहटी	6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24 कुल

(1)	(2)	(3)
3	श्री ओ. पी. भारद्वाज, अ.वि.अ. अधिकारी कोलार परियो., रेहटी	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 कुल 13.
4	श्री पारस परमार, अनुवि. अधिकारी, कोलार परियोजना, रेहटी	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 52, 53, 54 कुल 13.
5	श्री एन. एस. कोठारी, अ.वि.अ. कोलार परियोजना, रेहटी	65, 60, 61, 62, 47, 46, 48, 57, 58, 56, 55, 51, 59 कुल 13.
6	श्री आर. एन. शैकवार, अ.वि.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 कुल 13.
7	श्री एस. के. सांकल्ले, पशु चिकित्सालय अधिकारी, बुधनी	77, 78, 79, 80, 81, 82 कुल 06
8	श्री वी. के. दीवान, परियो. अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	86, 83, 84, 85, 87, 88 कुल 06
9	श्री एल. के. अहिरवार, अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग, बुधनी	89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110 कुल 15.
10	श्री विजय पटेल, अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग	95, 96, 97, 103, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118, 119 कुल 12
11	श्री आर. के. चौधरी, सहा. यंत्री, जनपद पंचायत, बुधनी	111, 112, 113, 114, 156, 157, 158, 159 कुल 08
12	श्री सी. आर. चंद्राकर, अ.वि.अ. कृषि, बुधनी	120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 कुल 11.
13	श्री शीवेश मिहानी, अ.वि.अ. बारना परियोजना मुख्यालय, बकतरा	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 कुल 15.
14	श्री धनंजय शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 कुल 10.

रिजर्व (1) श्री आर. बी. बड़कुल, ए.ई. नर्मदा प्रोजेक्ट शाहगंज

रिजर्व (2) श्री एस. एन. प्रजापति, उप वन मण्डलाधिकारी, उत्पादन बुधनी

रिजर्व (3) श्री नारायण सिंह चौहान, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बकतरा

### परिशिष्ट-1

क्र. 426-स्था.निर्वा.-याता.-2015.—त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2015 अन्तर्गत सीहोर जिले के विकासखण्ड आष्टा के तृतीय चरण निर्वाचन दिनांक 22 फरवरी 2015 को सम्पन्न कराने के लिये नियुक्त सेक्टर आफिसर को विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में.

सेक्टर क्रमांक (1)	शासकीय सेवक का नाम व पद (2)	सेक्टर अन्तर्गत सम्मिलित मतदान केन्द्रों का क्रमांक (3)
1	श्री अमिताभ वर्मा, प्रबंधक, पशु चिकित्सा विभाग, सीहोर	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 39 कुल 12
2	श्री पुरुषोत्तम मांझी, अ.वि.अ., लो.नि.वि., उप संभाग, आष्टा	11, 12, 13, 30, 31, 25, 26, 40, 41, 19, 20, 24, 32, 33 कुल 14.

(1)	(2)	(3)
3	श्री एम. पी. खान, उपयंत्री, जल संसाधन उप संभाग, आष्टा	36, 37, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 109 कुल 10
4	श्री आर. आर. वर्मा, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, सीहोर	29, 106, 219, 248, 21, 22, 23, 27, 28, 14, 15, 16, 17, 18 कुल 14.
5	मो. हनीफ खान, सहायक यंत्री, नगरपालिका आष्टा	45, 46, 47, 67, 52, 53, 54, 55, 56, 57 कुल 10
6	श्री सुरेन्द्र कुमार राठौर, प्रबंधक, म.प्र. स्टेट एग्री. इंडस्ट्रियल कांफेरिशन, सीहोर.	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 कुल 13
7	श्री ए. यू. खान, सहायक प्रबंधक, ग्रा. सड़क परियोजना ई.—1, सीहोर.	78, 79, 80, 83, 84, 72, 73, 74, 81, 82, 75, 76, 77 कुल 13
8	श्री उदलसिंह उईके, परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लो.नि.वि.	34, 35, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 117, 118 कुल 10
9	श्री संतोष कुमार खलखों, जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट वेयर हाउस कापो. सीहोर.	90, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 कुल 10.
10	श्री एस. ए. एस. रिजवी, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर.	89, 91, 92, 93, 94, 85, 86, 87, 88 कुल 09.
11	श्री राहुल चौधरी, संभागीय लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग सीहोर.	148, 149, 150, 151, 152, 97, 95, 96, 153, 154, 155 कुल 11.
12	श्री मंयक परमार, अ.वि.अ., जल संसाधन सीहोर.	98, 99, 156, 157, 158, 100, 101, 102, कुल 08.
13	श्री एम. के. शर्मा, सहायक प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण सीहोर.	368, 369, 378, 379, 380, 164, 165, 166, 370, 371 कुल 10.
14	श्री संजय श्रीवास्तव, सहा. प्रबंधक, ग्रा.स.वि.प्राधि. परियोजना सीहोर.	363, 364, 372, 373, 374, 167, 168, 169, 170, 367 कुल 10.
15	श्री एस. सी. मालवीय, मुख्य कार्य पालन अधिकारी, अंत्य. सीहोर.	181, 171, 172, 173, 175, 358, 359, 361, 365, 366, 357, 360, 362, 388, 389, 390 कुल 16.
16	श्री अशोक शुक्ला, उप पंजीयक, सहकारी समिति सीहोर.	182, 183, 184, 185, 179, 180, 352, 353, 354, 355, 356, 386, 387 कुल 13.
17	श्री एल. पी. धनोलिया, श्रम पदाधिकारी, सीहोर	159, 160, 161, 162, 163, 145, 146, 147, 375, 138, 139, 140, 376, 377 कुल 14.
18	श्री राजीव श्रीवास्तव, सहायक संचालक, मत्स्य विभाग, सीहोर	135, 136, 137, 194, 141, 142, 143, 144, 120, 121, 188, 189, 191 कुल 13.
19	श्री पुरुषोत्तम जोशी, सहायक संचालक, उद्यान सीहोर	193, 198, 201, 186, 187, 174, 176, 177, 178 कुल 09.
20	श्री पवन अहिरवार, जिला पंजीयक, सीहोर	381, 382, 383, 384, 385, 340, 341, 342, 343, 344 कुल 10.
21	श्री प्रेम सोलंकी, महाप्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण मर्यादित बैंक, सीहोर.	242, 243, 244, 245, 146, 247, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 249, 250 कुल 14.

(1)	(2)	(3)
22	श्री अनिल श्रीवास्तव, संयोजक आदिम जाति कल्याण, सीहोर	236, 237, 259, 260, 261, 255, 256, 257, 258, 251, 252, 253, 254 कुल 13.
23	श्री के. पी. त्रिपाठी, उप संचालक, पंचायत एवं निःशक्त कल्याण, सीहोर.	227, 228, 229, 235, 224, 225, 226, 272, 273, 230, 262, 263, 264, 265 कुल 14.
24	श्री विजय खातेकर, नाप-तौल निरीक्षक, सीहोर	212, 213, 240, 241, 220, 221, 222, 223, 214, 215, 216, 217, 218 कुल 13.
25	श्री अशोक पराड़कर, परियोजना समन्वयक, जि. शिक्षा केन्द्र सीहोर	111, 112, 190, 192, 113, 114, 115, 116, 119, 122, 123, 124, 125 कुल 13.
26	श्री संजय श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास (ग्रामीण) सीहोर.	266, 267, 268, 269, 276, 205, 206, 203, 204, 270, 271, 277 कुल 12.
27	श्री एम. सी. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यांत्रिकी, सीहोर	195, 196, 345, 350, 197, 199, 200, 202, 337, 338, 339 कुल 11.
28	श्री राजेश देशमुख, खनिज निरीक्षक, कार्यालय खनिज, सीहोर	329, 330, 331, 332, 327, 328, 333, 334, 322, 323, 324, 351 कुल 12.
29	श्री दीपक चौकसे, अ.वि.अ., लोक निर्माण विभाग, आष्टा	317, 318, 335, 336, 325, 326, 346, 347, 309, 310, 319, 320, 321 कुल 13.
30	श्री शंकर कनिस, खनिज निरीक्षक, कार्यालय खनिज, सीहोर	207, 208, 348, 349, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 315, 316 कुल 14.
31	श्री व्ही. के. जैन, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (मेकेनिकल) उप खण्ड, सीहोर.	287, 288, 289, 290, 291, 209, 210, 274, 275, 211, 292, 293 कुल 12.
32	श्री डी. के. सक्सेना, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर	284, 285, 286, 298, 299, 278, 279, 280, 281, 282, 283 कुल 11.
33	श्री एस. एस. पटेल, प्रभारी उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	294, 295, 296, 297, 300, 305, 306, 307, 308 कुल 09.

रिजर्व (1) श्री जगदीश ठाकुर, सहायक संचालक कृषि सीहोर

रिजर्व (2) डॉ. एन. पी. एस. गंगवार, उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, सीहोर

रिजर्व (3) श्री व्ही. के. मिश्रा, उपयंत्री, लो.नि.वि., आष्टा

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

संशोधित आदेश

क्र. 166-त्रिस्तरीय पंचायत/सेक्टर/2014-15.—त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2014-15 के सुचारू संपादन हेतु मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर निम्नानुसार सारिणी में वर्णित अधिकारी को जनपद पंचायत, पाटन के उनके नाम के सम्मुख आवंटित मतदान केन्द्रों के सेक्टर के लिए सेक्टर अधिकारी/मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करता हूँ. नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स सेक्टर अधिकारी, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे. सेक्टर अधिकारी मास्टर ट्रेनर्स को अपने वाहन में साथ लेकर जावेंगे.

जनपद पंचायत—पाटन

सेक्टर क्र	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	पूर्व में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	मास्टर ट्रेनर्स का नाम, पद एवं मोबाईल नंबर	मतदान केन्द्र क्र.	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सूर्यप्रकाश बघेल, सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, कार्यालय, संभाग उपायुक्त, संभाग 1ए, जबलपुर. 9827202568	श्री सत्येन्द्र सिंह, डिप्टी मैनेजर, म. प्र. राज्य माईनिंग निगम, जबलपुर. 9425386244	मो. सिद्दीकी, प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई., जबलपुर. 9893451178	16, 17, 18, 14, 15, 4, 5, 6, 12, 13	(कुल 10)
5	श्री एच. के. नेताम, चीफ एनालिस्ट, डी.जी.एम. आर.ओ., जबलपुर. 9479754308	श्री आर. के. गुप्ता, स. यंत्री, म. प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि कंपनी वितरण केन्द्र, गोसलपुर, जबलपुर. 9425806167	श्री रमाकांत वाजपेयी, प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई., जबलपुर. 8989613528	46, 47, 48, 49, 50, 51, 43, 44, 45	(कुल 9)
14	श्री दिनेश कुमार साहू, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खंड, जबलपुर. 9893086969	श्री हरि किशन शर्मा, संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, जबलपुर संभाग. 9425849111	श्री जे. के. गुप्ता, प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई., जबलपुर. 9424312322	191, 192, 156, 157, 158, 193, 194, 189, 190	(कुल 9)
18	श्री एस. के. सिंघई, सहायक यंत्री, हिरन जल संसाधन, जबलपुर. 9425815858	श्री एस. के. सेनगुप्ता, वरि. वैज्ञानिक विभागाध्यक्ष, विज्ञान शास्त्र विभाग, जेएनकेवीवी, जबलपुर. 9893626720	श्री जी. एस. चौरसिया, प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई., जबलपुर. 9407058814	119, 120, 121, 117, 118, 199, 200, 101, 102, 103	(कुल 10)
20	श्री ललित कुमार गालव, सहायक संचालक, प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, आधारताल, जबलपुर. 9993146524	श्री आर. के. दुबे, वरि. वैज्ञानिक, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर 9425158076	श्री पी. के. गुमास्ता, प्रशिक्षण अधिकारी, आई.टी.आई., जबलपुर. 9993462845	122, 123, 124, 114, 115, 116, 96, 97	(कुल 8)

## रिजर्व सेक्टर अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन

क्र. (1)	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर (2)
1	श्री एस. के. चौरसिया, कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी, आधारताल, जबलपुर 8871270421
2	श्री एस. आर. दुबे, सहायक यंत्री, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, जबलपुर 9713488752
3	श्री श्याम बहादुर सिंह, सहा. संचालक, कीटनाशक एवं गुण नियंत्रण, जबलपुर 9753803525

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

## संशोधित आदेश

क्र. 165-त्रिस्तरीय पंचायत/सेक्टर/2014-15.—त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2014-15 के सुचारू संपादन हेतु मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर निम्नानुसार सारिणी में वर्णित अधिकारी को जनपद पंचायत, शहपुरा के उनके नाम के सम्मुख आवंटित मतदान केन्द्रों के सेक्टर के लिए सेक्टर अधिकारी/पुलिस सेक्टर अधिकारी/मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करता हूँ. नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स सेक्टर अधिकारी, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे. सेक्टर अधिकारी मास्टर ट्रेनर्स को अपने वाहन में साथ लेकर जावेंगे.

## जनपद पंचायत—शहपुरा

सेक्टर क्र	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	पूर्व में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	मास्टर ट्रेनर्स का नाम, पद एवं मोबाईल नंबर	मतदान केन्द्र क्र.	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	श्री पी. के. मोईत्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकीय कृषि महाविद्यालय, जबलपुर. 9893362945	श्री सुधाकर सिंह, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास केन्द्र, जबलपुर. 9425031131	श्री पवन शंकर तिवारी, विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर.	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	(कुल 11)
20	श्री एस. के. राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, कृषि रसायन विभाग जेएन केवी, जबलपुर. 9669786678	श्री एस. के. सुमन, उपायुक्त, हाउसिंग बोर्ड. 9425772103	श्री गोपाल मीना, सहा. प्राध्यापक, शास. इंजि. कॉलेज, जबलपुर. 9893177067	188, 189, 190, 191, 183, 184, 185, 192, 193	(कुल 9)
22	श्री अखिलेश नेटी, लेखाधिकारी, कार्यालय, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रा.स.दि.प्र., जबलपुर. 9407839762	श्री अजय कुमार सूरी, कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई बाणसागर, बरगी नगर, जबलपुर. 9425411335	श्री उपेन्द्र कुमार जोशी, सहा. प्राध्यापक, शास. इंजि. कॉलेज, जबलपुर. 9826311077	212, 213, 231, 232, 218, 219, 216, 217, 233, 234	(कुल 10)
23	श्री आर. के. दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष.	श्री मुकुन्द नारायण त्रिवेदी, उप वन संरक्षक, सामान्य वनमंडल, जबलपुर. 9424792688	श्री दीपक कुमार पाठक, प्राध्यापक शास. इंजी. कॉलेज, जबलपुर. 9425160128	227, 228, 229, 230, 225, 226, 222, 223, 224	(कुल 9)

**रिजर्व सेक्टर अधिकारी, जनपद पंचायत, शहपुरा**

क्र. (1)	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर (2)
1	श्री, एस. के. पाण्डे, वैज्ञानिक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी कृषि महा. जेएनकेवीवी, जबलपुर 8989892052
2	श्री अरुण कुमार दीक्षित, सहायक संचालक, हाथकरघा जिला पंचायत, जबलपुर 9425863196
3	श्री डी. एस. धरपुरे, सहायक प्रबंधक, कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबंधक, म. प्र. राज्य विकास निगम, उखरी, जबलपुर 9926725815
4	श्री एम. ए. खान, वरि. वैज्ञानिक संचालक, विस्तार सेवाएं, जेएनकेवीवी, जबलपुर 9425158307

**एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.**

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

**संशोधित आदेश**

क्र. 167-त्रिस्तरीय पंचायत/सेक्टर/2014-15.—त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2014-15 के सुचारू संपादन हेतु मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर निम्नानुसार सारिणी में वर्णित अधिकारी को जनपद पंचायत, मझौली के उनके नाम के सम्मुख आवंटित मतदान केन्द्रों के सेक्टर के लिए सेक्टर अधिकारी/पुलिस सेक्टर अधिकारी/मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करता हूँ. नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स सेक्टर अधिकारी, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे. सेक्टर अधिकारी मास्टर ट्रेनर्स को अपने वाहन में साथ लेकर जावेंगे.

**जनपद पंचायत—मझौली**

सेक्टर क्र	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	पूर्व में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद एवं कार्यालय का नाम	मास्टर ट्रेनर्स का नाम, पद एवं मोबाईल नंबर	मतदान केन्द्र क्र.	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री कपिल शुक्ला, सहायक यंत्री, विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9893984500	श्री चेतन जैसवाल, ए. डायरेक्टर सी एफ ओ एम पी पी टी सी एल, जबलपुर 9425806900	श्री अनिल सिंघई, सहा. प्राध्यापक शास. इंजिनियरिंग कॉलेज, जबलपुर 9406760888	172, 173, 174, 175, 176, 177, 178	(कुल 7)
3	श्री आई. के. कौल, सहायक यंत्री, एन व्ही सं. क्र. 8, सिहोरा, जबलपुर 9893135620	श्री आर. एस. सिंह, बी. ई. ओ., कुण्डम 9755766536	श्री राम धुर्वे, व्याख्याता शास. इंजिनियरिंग कॉलेज, जबलपुर 942406738	168, 169, 170, 171, 179, 180, 154, 155	(कुल 8)
4	श्री डी. के. पगारे, सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण, यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाएं, जबलपुर 9424379109	डॉ. दीपक कुमार गोटिया, उपसंचालक, कार्या. क्षेत्रीय उप संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, जबलपुर 9425151802	श्री अशोक मराठे, प्राध्यापक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर 9425446884	181, 182, 183, 184, 117, 118, 119, 51, 52, 53	(कुल 10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	श्री मुकेश वालमीक, सहायक यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9981088020	श्री रवि सिंह, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, 9424705200	श्री एम. डी. पटेल, व्याख्याता, उच्चतर मा. विद्यालय, विष्णुदत्त, सिहोरा 9425465625	200, 201, 189, 190, 191, 54, 55	(कुल 7)
11	श्री व्ही. के. शुक्ला, सहायक संचालक, कृषि कार्यालय, उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, जबलपुर 8109080558	श्री एस. एल. सोनवे, एस डी फोरेस्ट एस एफ आर आई पोलीपाथर, जबलपुर 9424796466	श्री आलोक खरे, प्रशिक्षण अधिकारी, आई टी आई, जबलपुर 952772490	107, 108, 109, 134, 135, 136, 137, 138, 139	(कुल 9)
13	श्री शशिकांत सूपेकर, क्षेत्रीय प्रबंधक, म. प्र. वित्त निगम, जबलपुर 9425026204	श्री अनिल सिंह, मुख्य विधि अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर, विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9826963155	श्री लेखमणि अग्निहोत्री, प्रशिक्षण अधिकारी, आई टी आई, जबलपुर 9425383849	99, 100, 101, 142, 143, 45, 46, 149, 150	(कुल 9)
19	श्री विजय कुमार वर्मा, सहायक अनुसंधान अधिकारी, उप संचालक, मिट्टी एवं धातु परी. संभाग जबलपुर 8085457494	श्री जे. बी. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर 9425385002	श्री सुशील यादव, प्रशिक्षण अधिकारी, आई टी आई, जबलपुर 993847777	60, 61, 62, 5, 6, 7, 28, 29	(कुल 8)

योग : 203

## रिजर्व सेक्टर अधिकारी, जनपद पंचायत, मझौली

सेक्टर क्र. (1)	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर (2)
1	श्री मांगीलाल डाबर, अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाएं, जबलपुर 9406884781
2	श्री राजीव श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता, म. प्र. क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, जबलपुर 9425174574
3	श्री के. के. तलैया, कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई, बाणसागर क्रमांक 2, बरगी हिल्स, जबलपुर 9893214714

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.



कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन 2015 (तृतीय चरण) हेतु नियुक्त सेक्टर आफिसर्स को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव

क्रमांक	सेक्टर आफिसर का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>जनपद पंचायत प्रभातपट्टन</b>				
1	श्री जी. डी. गुलबाके	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, बैतूल	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 1.
2	श्री जे. एस. सिकरवार	महाप्रबंधक, म. प्र. ग्राम सड़क विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 2.
3	श्री आर. एस. गौतम	सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्राम सड़क विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 3.
4	श्री जी. एस. मुवेल	उप वनमण्डलाधिकारी, आमला दक्षिण वन मण्डल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 4.
5	श्री टी. एस. सूलिया	उप वनमण्डलाधिकारी मुलताई दक्षिण सामान्य	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 5.
6	श्री आर. के. मालवीय	सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्राम सड़क विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 6.
7	श्री एम. एस. सोलंकी	उप वनमण्डलाधिकारी, सारणी, उत्तर सामान्य, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 7.
8	श्री एन. के. डहेरिया	सहायक प्रबंधक, म. प्र. ग्राम सड़क विकास परियोजना इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 8.
9	श्री जी. पी. उच्चसरे	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आमला.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 9.
10	श्री ए. के. दहेरिया	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 10.
11	श्री अजय जायसवाल	जिला रोजगार अधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 11.
12	श्री आर. आर. कालभोर	कार्यपालन यंत्री, ग्रा. यां. सेवा संभाग, मुलताई	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 12.
13	श्री एस. के. सिरसाम	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, प्रभातपट्टन संभाग, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 13.
14	श्री पी. एस. किरार	उपसंचालक, कृषि, बैतूल	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 14.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	श्री शिवराज नागले	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना प्रभातपट्टन.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का सेक्टर क्र. 15.
16	श्री पी. व्ही. डहाट	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रभातपट्टन, संभाग मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का रिजर्व सेक्टर.
17	श्री पी. एल. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का रिजर्व सेक्टर.
18	श्री एस. के. सिरसाम	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, प्रभातपट्टन.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का रिजर्व सेक्टर.
19	श्री बी. एस. मौर्य	वन परिक्षेत्र अधिकारी, सारणी	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र प्रभातपट्टन का रिजर्व सेक्टर.
<b>जनपद पंचायत, भैंसदेही</b>				
20	श्री सतीष शर्मा	संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी. आई. यू., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 1.
21	श्री एस. एस. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 2.
22	श्री अनुराग सिंह	परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी. आई. यू., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 3.
23	श्री एस. एस. मौर्य	उप संभागीय प्रबंधक, रामपुर भतौड़ी, परियोजना, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 4.
24	श्री जे. एस. बारस्कर	परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी. आई. यू., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 5.
25	श्री माधोसिंह सिसोदिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी, गवासेन, पश्चिम वन मंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 6.
26	श्री पतिराम करौची	वन परिक्षेत्र अधिकारी, खेड़ीसांवलीगढ़, उत्तर वन मंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 7.
27	श्री विपिन वामनकर	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, भैंसदेही.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 8.
28	श्री यू. के. गौर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा. यां. सेवा, भैंसदेही	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 9.
29	श्री सिद्धार्थ दीपशंकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण वन मंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का सेक्टर क्र. 10.
30	श्री सेवकराम मंडलोई	वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण वन मंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का रिजर्व सेक्टर.
31	श्री हरिसिंह	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, भैंसदेही.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भैंसदेही का रिजर्व सेक्टर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>जनपद पंचायत, भीमपुर</b>				
32	श्री शिशिर कुशवाह	महाप्रबंधक, म.प्र. ग्राम सड़क विकास परियोजना, इकाई-1, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 1.
33	श्री आई. एस. गडरिया	उप वनमंडलाधिकारी तावड़ी वन मण्डल पश्चिम, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 2.
34	श्री सुभाष चन्द्र प्रधान	वन क्षेत्रपाल, वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 3.
35	श्री आर. एम. कुरैशी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	प्रथम श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 4.
36	श्री रमेशचन्द्र आर्य	परियोजना अधिकारी, एकी.बा.वि.परि., भीमपुर	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 5.
37	श्री अशोक मालवीय	जिला पंजीयक, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 6.
38	श्री एस. पी. सैनी	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 7.
39	श्री फागलाल नागरकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, शाहपुर, उत्तर सामान्य, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 8.
40	श्री आर. के. चौरे	अपर वनमंडलाधिकारी, शाहपुर, उत्तर सामान्य, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 9.
41	श्री एम. ए. खान	खनिज अधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 10.
42	श्री सी. एल. पंडित	सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्राम सड़क विकास परि. इकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 11.
43	श्री के. के. सोनी	सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्राम सड़क विकास परि. इकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 12.
44	श्री जी. एल. साहू	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 13.
45	श्री अमित खन्ना	वन परिक्षेत्र अधिकारी, रानीपुर, उत्तर सा., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 14.
46	श्री बी. आर. साहू	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, भीमपुर.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 15.
47	श्री मुकेश कुमार जामोर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, तावड़ी, पश्चिम वन मंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का सेक्टर क्र. 16.
48	श्री एच. एस. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, भीमपुर	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का रिजर्व सेक्टर.
49	श्री अभिजीत पचौरी	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का रिजर्व सेक्टर.
50	श्री सुबोध शर्मा	योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	जनपद पंचायत क्षेत्र भीमपुर का रिजर्व सेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

फोन नं. 07522-237905

दतिया, दिनांक 10 फरवरी 2015

## आदेश

क्र. क्यू.-स्था.नि.-सेक्टर ऑफ़ी-2014-15.-त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिये आयोग के पत्र क्रमांक 1707, दिनांक 6-12-2014 के निर्देशानुसार विकासखण्ड स्तर पर जनपद भाण्डेर हेतु जिला पंचायत सदस्य / जनपद पंचायत सदस्य / सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के सामने आवंटित वार्ड एवं मतदान केन्द्रों हेतु जोनल (सेक्टर) ऑफ़ीसर नियुक्त किया जाता है :-

सेक्टर क्र. (1)	सेक्टर ऑफ़ीसर का नाम एवं पद मोबाईल नं. सहित (2)	सेक्टर अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत का नाम (3)	सेक्टर का वार्ड क्रमांक व नाम (4)	सेक्टर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान के क्रमांक व नाम (5)	कुल मतदान केन्द्र (6)	संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र का नाम (7)	रिमार्क (8)
1	श्री पी. के. पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री, राजघाट परियोजना, दतिया, मो. 9358810191	सेंथरी, आंसूली, नौगुवां	01-सेंथरी	1-मा. शा. सेंथरी भवन, भाग 1 2-मा. शा. सेंथरी भवन, भाग 2 3-प्रा. शा. सेंथरी भवन 4-प्रा. शा. आंसूली भवन 5-प्रा. शा. सेमरी भवन 6-प्रा. शा. मलौआ भवन 7-प्रा. शा. नौगुवां भवन, भाग 1 8-प्रा. शा. कर्वा भवन.	08	थ्रेट / गोदन	-
2	श्री के. के. पाराशर, जिला क्रीड़ा अधिकारी, दतिया, मो. 9425743044	रिछौरा, अहरौनी, भलका	02-रिछौरा	9-प्रा. शा. रिछौरा भवन 10-आंगनवाड़ी रिछौरा 11-प्रा. शा. भवन, बघनपुरा 12-मा. शा. अतिरिक्त कक्ष, अहरौनी 13-प्रा. शा. अतिरिक्त कक्ष, अहरौनी 14-प्रा. शा. भलका 15-मा. शा. भलका.	07	गोदन	-
3	श्री एस. पी. धारकर, प्राचार्य, हाईस्कूल, गोदन, मो. 9425776632	उड़ीना, वरका	03-उड़ीना	16-मा. शा. उड़ीना, पूर्वी भाग 17-मा. शा. उड़ीना, पश्चिमी भाग 18-पंचायत भवन, उड़ीना 19-आंगनवाड़ी भवन, उड़ीना 20-प्रा. शा. बरका 21-मा. शा. अतिरिक्त कक्ष, बरका.	06	उड़ीना	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	श्री दिलीप व्यास, ए.पी.सी., जिला शिक्षा केन्द्र, दतिया, मो. 9826316003	खिरियाफैजुल्ला, मैथानापाली, सोड़ा	04-खिरियाफैजुल्ला	22-प्रा. शा. भाग 1, खि.फैजुल्ला 23-प्रा. शा., छान 24-प्रा. शा., मैथानापाली 25-प्रा. शा., चरई 26-प्रा. शा., सोड़ा 27-पंचायत भवन, सोड़ा 28-प्रा. शा., सेमाहा.	07	पण्डोखर	-
5	श्री ए. के. त्रिपाठी, एम.डी.ओ., राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी 28, दतिया, मो. 9977146987	गोंदन, कमलापुरी, तैड़त	05-गोंदन	29-अ.जा. छात्रावास, गोंदन 30-हाईस्कूल, गोंदन 31-प्रा. शा., गोंदन 32-मा. शाला, गोंदन 33-मा. शा., कमलापुरी 34-पंचायत भवन, कमलापुरी 35-प्रा. शा., काशीपुर 36-प्रा. शा., तैतोड़ भाग 1.	08	गोंदन	-
6	श्री अर्जुन नरवरिया, सहायक यंत्री, भाण्डेर नहर संभाग, भाण्डेर, मो. 9479347191	इमलिया, भिटारी, धनपपीरी, तैतना	06-इमलिया	37-पंचायत भवन, इमलिया 38-प्रा. शा., हसनपुर 39-मा. शा., भिटारी उत्तरी भाग 40-मा. शा., भिटारी दक्षिणी भाग 41-प्रा. शा. अति. कक्ष, धनपीपरी 42-प्रा. शा., डिमपुरा 43-प्रा. शा., तैतना 44-प्रा. शा., हरदई.	08	भाण्डेर/पण्डोखर	-
7	श्री यू. सी. तिवारी, उपयंत्री, नहर संभाग भाण्डेर, मो. 9425736598	स्यौरा, तालगांव, राखरा, पुरादाबोह	07-स्यौरा	45-प्रा. शा., स्यौरा 46-प्रा. शा., नयागांव 47-मा. शा., तालगांव 48-प्रा. शा., तालगांव भाग 1 49-सचिवालय, तालगांव 50-प्रा. शा., पडरीकला 51-प्रा. शा., राखरा 52-प्रा. शा., बोदर	10	पण्डोखर	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	श्री दीपक सतपुते, कार्यपालन यंत्री, राजघाट दतिया, मो. 9753011422	सालोनी-बी, धौड़	08-सालोन-बी	53-प्रा. शा. अतिरिक्त कक्ष, पुरादबोह 54-प्रा. शा., भदरौआ. 55-मा. शा., सालोन-बी भाग 1 56-मा. शा., सालोन-बी भाग 2 57-मा. शा., सालोन-बी भाग 3 58-प्रा. शा., सालोन-बी 59-पशु चिकित्सालय, सालोन-बी 60-प्रा. शा., धौंड 61-मा. शा., धौंड. 62-प्रा. शा., पोर्सा 63-पंचायत भवन, पोर्सा 64-प्रा. शा., जौरी 65-प्रा. शा., विशेषपुरा 66-मा. शा., उड़ी 67-प्रा. शा., गनेशपुरा 68-प्रा. शा., महादुआ 69-प्रा. शा., बैसौरा. 70-प्रा. शा., सोहन 71-मा. शा., सोहन 72-प्रा. शा., चांदनी 73-प्रा. शा., कुरगांव 74-प्रा. शा., विण्डवा 75-प्रा. शा. अतिरिक्त कक्ष, विण्डवा 76-प्रा. शा., घनश्यामपुर. 77-मा. शा., बिल्हेटी 78-नवीन आंगनवाड़ी भवन, बिल्हेटी 79-प्रा. शा., सकतपुरा 80-प्रा. शा., टौरी 81-प्रा. शा., भेदपुरा 82-प्रा. शा., मैथानापहूज 83-मा. शा., मैथानापहूज.	07	सालोन-बी	-
9	श्री एन. एन. जाटव, प्राचार्य, हाईस्कूल पिपरीआकलां, मो. 9893153266	पोर्सा, जौरी, उड़ी, महादुआ	09-पोर्सा		08	भगुवापुरा	-
10	श्री संदीप सोहिल, एस.डी.ओ., राजघाट, मो. 7566755677	सोहन, चांदनी, विण्डवा	10-सोहन		07	पण्डोखर	-
11	श्री आर. के. यादव, उपयंत्री, सिंचाई विभाग, मो. 9826546965	बिल्हेटी, टोरी, मैथानापहूज	11-बिल्हेटी		07	पण्डोखर	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	श्री एस. के. सोनी, उपयंत्री, नहर संभाग, भाण्डेर मो. 9425771701	पण्डोखर, रामनेर, खिरियाआलम	12-पण्डोखर	84-मा. शा., पण्डोखर 85-मा. शा., अतिरिक्त कक्ष, पण्डोखर 86-प्रा. शा., पण्डोखर 87-प्रा. शा. उत्तरी भाग, रामनेर 88-प्रा. शा. दक्षिणी भाग, रामनेर 89-प्रा. शा., दलपतपुरा 90-मा. शा., खिरियाआलम 91-प्रा. शा., सौजना 92-प्रा. शा., गुदाहा. 93-मा. शा., बडेरासोपान 94-प्रा. शा., बडेरासोपान 95-प्रा. शा. क., बडेरासोपान 96-मा. शाला भाग 2, बडेरासोपान 97-सेवा सहकारी संस्था, बडेरासोपान 98-प्रा. शा., धरमपुरा 99-प्रा. शा., सिमथरा.	09	पण्डोखर	-
13	श्री मानसिंह कनेस, सहा. प्राध्यापक, शा.वि.सि. महाविद्यालय, भाण्डेर, मो. 7748978310	बडेरासोपान, धरमपुर	13-बडेरासोपान	100-पंचायत भवन, सरसई 101-मा. शा., सरसई 102-प्रा. शा., सरसई 103-प्रा. शा. क., सरसई 104-आयुर्वेदिक औषधालय, सरसई 105-प्रा. शा. प्यावल 106-मा. शा., प्यावल 107-प्रा. शा., धमना 108-मा. शा., धमना.	07	पण्डोखर	-
14	श्री कोकसिंह दादौरिया, सहा. प्राध्यापक, पी. जी. कालेज, दतिया, मो. 9926486436	सरसई, प्यावल	14-सरसई	109-हाईस्कूल, बिछोंदना 110-प्रा. शा. बा., बिछोंदना 111-प्रा. शा. क., बिछोंदना 112-प्रा. शा. जादमपुर 113-मा. शा., सालोन-ए, भाग 1 114-मा. शा., सालोन-ए, भाग 2	09	सरसई	-
15	श्री आनन्दकन्द गुप्ता, ए.पी.सी., जिला शिक्षा केन्द्र, दतिया, मो. 9584581929	बिछोंदना, सालोन-ए	15-बिछोंदना		08	बिछोंदना/सालोन-बी	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	श्री एम. के. नरवरिया, उपयंत्री, सिंचाई विभाग, भाण्डेर मो. 9893982951	सलेतरा, मुस्तरा	16-सलेतरा	115-मा. शा., बगदा 116-प्रा. शा., खिरियाझांसी. 117-मा. शा., सलेतरा 118-मा. शा. अतिरिक्त कक्ष सलेतरा 119-प्रा. शा. अतिरिक्त कक्ष सलेतरा 120-प्रा. शा., सैतोल 121-प्रा. शा., मुस्तरा 122-पंचायत भवन, मुस्तरा 123-प्रा. शा., कुमरियाराय.	07	बिछोदना	-
17	श्री एम. पी. पटैरिया, अनुविभागीय अधिकारी, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी डिवीजन-9, दतिया, मो. 9406577657	लहारहवेली, धनोटी, सदका	17-लहारहवेली	124-प्रा. शा., लहारहवेली (पुराना) 125-आंगनबाड़ी भवन, लहारहवेली 126-प्रा. शा. अतिरिक्त कक्ष, लहारहवेली 127-प्रा. शा., धनोटी भाग 1 128-प्रा. शा., धनोटी भाग 2 129-प्रा. शा., खिरियाकांडौर 130-पंचायत भवन, सदका 131-प्रा. शा. अति. कक्ष, पुराविल्हैटी 132-प्रा. शा., बगदेही.	09	पण्डोखर	-
18	श्री रजनीश गुप्ता, उपयंत्री, लो.स्वा.यां., भाण्डेर मो. 9077223377	कुतोली, वीसलपुरा, सोफता, सुनारी	18-कुतोली	133-प्रा. शा., कुतोली 134-प्रा. शा., तिलौरा 135-प्रा. शा., रमपुरा 136-मा. शा. बीसलपुरा 137-प्रा. शा., नटरा 138-प्रा. शा., सोफता 139-प्रा. शा., सोफता (नया) 140-मा. शा., सुनारी 141-प्रा. शा., नादिया.	09	पण्डोखर	-
19	श्री जे. एस. त्यागी, उपयंत्री, नहर संभाग, भाण्डेर, मो. 9425775519	अजीतपुरा, सिंहपुरा, माधोपुरा	19-अजीतपुरा	142-प्रा. शा., अजीतपुरा 143-पंचायत भवन, अजीतपुरा 144-प्रा. शा., पथरानाराय 145-प्रा. शा., सिंहपुरा	08	भाण्डेर	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	श्री हरनोद शर्मा, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, भाण्डेर, मो. 9826283938	चन्द्रोल, बागपुरा, तिगराकलां, बरचौली	20-चन्द्रोल	146-प्रा. शा., खिरियागोपी 147-प्रा. शा., छछपुरा 148-प्रा. शा. माधौपुरा 149-प्रा. शा., बिछोरेटा. 150-प्रा. शा., चन्द्रौल 151-मा. शा., चन्द्रौल 152-प्रा. शा., बागपुरा 153-पंचायत भवन, बागपुरा 154-प्रा. शा., बरचौली 155-मा. शा., बरचौली 156-प्रा. शा., केवलारी 157-प्रा. शा., देवरा 158-प्रा. शा., खिरियारियासत 159-प्रा. शा., तिगराकलां.	10	भाण्डेर	-
21	श्री आर. एल. असैया, सहा. उद्यान अधीक्षक, भाण्डेर मो. 9329766983	बेरछ, वराना, ततारपुर	21-बेरछ	160-प्रा. शा., बेरछ भाग 1 161-प्रा. शा., बेरछ भाग 2 162-मा. शाला, बेरछ 163-प्रा. शा. बडेराहवेली 164-पंचायत भवन, वराना 165-प्रा. शा., दलीपुरा (रामगढ़) 166-प्रा. शा., पथरया ततारपुर 167-बहुउद्देशीय भवन, पट्टी ततारपुर 168-प्रा. शा. भवन पट्टी ततारपुर.	09	भाण्डेर	-
22	श्री पी. के. यादव, उपयंत्री, जनपद पंचायत, भाण्डेर, मो. 7354956527	खिरियासाहब दलपतपुर, भरौली	22-खिरियासाहब	169-प्रा. शा., खि.साहब 170-प्रा. शा., बैधारी 171-प्रा. शा., नौबई 172-प्रा. शा., दलपतपुर 173-ग्राम पंचायत भवन, दलपतपुर 174-प्रा. शा., भरौली 175-प्रा. शा., बैजापरा (नवीन) 176-प्रा. शा., हसापुर.	08	बिछोदना/भाण्डेर	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपयंत्री, राजघाट भाण्डेर, मो. 9425743007	पिपरौआकलां, अस्टोट, कुलरिया	23-पिपरौआकलां	177-मा. शा., पिपरौआकलां 178-प्रा. शा., पिपरौआकलां 179-ई.जी.एम. शाला, पिपरौआकलां 180-मा. शा., अतिरिक्त कक्ष, पिपरौआकलां 181-प्रा. शा. अति. कक्ष, अस्टोट 182-मा. शा. अस्टोट 183-प्रा. शा., मुरिया 184-मा. शा. भवन, कुलरिया 185-प्रा. शा., बेंदा.	09	सरसई	-
24	श्री आर. के. सारस्वत, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, भाण्डेर, मो. 9893982951	रिजर्व					
25	श्री आर. एस. मावई, व.कृ. विस्तार अधिकारी, भाण्डेर, मो. 7697056239	रिजर्व					
26	श्री हेरन्द्र राठौर, मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी, भाण्डेर	रिजर्व					
27	श्री बृजेन्द्र परमार, मण्डी सचिव, कृषि उपज मण्डी, दतिया	रिजर्व					
28	श्री के. सी. उदैनिया, जिला खनिज अधिकारी, दतिया						
29.	श्री तुलसीराम खरे, उपयंत्री, नहर संभाग भाण्डेर, मो. 9451658463						
30	श्री आर. पी. झों, उपयंत्री, सर्व शिक्षा अभियान, भाण्डेर, मो. 9009659094.						

सेक्टर ऑफिसर संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर अपने प्रभार के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी संलग्न चैकलिस्ट अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिन अधिकारियों के पास विभागीय वाहन उपलब्ध हैं वे अपने वाहन का उपयोग करेंगे। निर्वाचन कार्य अर्वाधि के दौरान आवंटित सेक्टर के लिये सेक्टर ऑफिसरों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त रहेंगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.